

पी0डी0टी0–2021 काउन्सिलिंग हेतु आवश्यक सूचना

सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पी0डी0टी0–2021 (डिप्लोमा कार्यक्रम) की प्रवेश परीक्षा में 349 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुये है। इच्छुक अभ्यर्थी काउन्सिलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीकरण दिनांक 15.10.2021 से दिनांक 25.10.2021 को रात्रि 12:00 बजे तक विश्वविद्यालय वेबसाइट पर करना सुनिश्चित करें।

ऑनलाइन पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी नीचे दिये गये काउन्सिलिंग हेतु पंजीकरण अनुदेशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें। तदनुसार ऑनलाइन पंजीकरण करना सुनिश्चित करें। बिना पंजीकरण के काउन्सिलिंग में अभ्यर्थियों के प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा। केवल पंजीकृत अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा मेरिट सूची के अनुसार काउन्सिलिंग में भाग लेने हेतु सूचना केवल विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। अन्य किसी माध्यम से अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी। उसके उपरान्त अभ्यर्थियों की प्रथम चरण की काउन्सिलिंग दिनांक **02 नवम्बर, 2021** को पशुचिकित्सा महाविद्यालय के मुख्य भवन में प्रातः 10:00 बजे से आयोजित की जायेगी। प्रथम चरण की काउन्सिलिंग में सीटें रिक्त होने की दशा में ही द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग दिनांक **08 नवम्बर, 2021** को निर्धारित समय पर आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को समय पर काउन्सिलिंग में उपस्थित होकर काउन्सिलिंग में भाग लेना सुनिश्चित करें। यात्रा में किसी भी प्रकार का विलम्ब/व्यवधान होने या काउन्सिलिंग में अनुपस्थित होने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे। अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्रों सहित चार-चार छायाप्रतियाँ एवं निर्धारित शिक्षण शुल्क की व्यवस्था कर काउन्सिलिंग में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

कुलसचिव

पी0डी0टी0-2021 (डिप्लोमा कार्यक्रम) की काउन्सिलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीकरण अनुदेश।

1. पी0डी0टी0-2021 प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दिनांक 15.10.2021 से दिनांक 25.10.2021 तक काउन्सिलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। काउन्सिलिंग हेतु केवल पंजीकृत अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
2. सर्वप्रथम अभ्यर्थी विश्वविद्यालय बेबसाइट पर दिये गये काउन्सिलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीकरण लिंक पर क्लिक करेंगे। तदुपरान्त अपने पंजीकृत मोबाइल नम्बर भरकर लॉगिन करेंगे। ओ0टी0पी0 पंजीकृत मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल पर प्राप्त होगा।
3. अभ्यर्थी द्वारा लॉगिन करने के उपरान्त निर्धारित काउन्सिलिंग पंजीकरण शुल्क रू0 200/- ऑनलाइन डेबिट/क्रेडिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग आदि के द्वारा जमा करना होगा।
4. पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के पश्चात पावती रसीद का प्रिन्ट अवश्य लें। जिन अभ्यर्थियों के पंजीकरण आवेदन-पत्र पर ट्रांजेक्शन नम्बर अंकित नहीं होगा। उन्हें काउन्सिलिंग हेतु अर्ह नहीं माना जायेगा। केवल काउन्सिलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीकरण ही स्वीकार किये जायेंगे।
5. जिन अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन-पत्र में इण्टरमीडिएट परीक्षा के अंक अंकित नहीं किये हैं वे अपने इण्टरमीडिएट परीक्षा के अंक अंकित करें।
6. पंजीकरण हेतु नीचे दिये गये सभी मूल प्रमाण-पत्रों को स्कैन कर पीडीएफ फाइल में अपलोड करना आवश्यक है।

पी0डी0टी0-2021 (डिप्लोमा कार्यक्रम) की काउन्सिलिंग हेतु अनुदेश-

- सामान्य निवास प्रमाण पत्र।
- हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र।
- इण्टरमीडिएट से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र।
- यदि आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र।
- चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक का न हो।
- पिता/संरक्षक का नवीनतम आय-प्रमाण पत्र जो वर्ष 2021 का हो।
- उस विद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र/ट्रान्सफर सर्टिफिकेट/विश्वविद्यालय प्रवजन प्रमाण-पत्र (माइग्रेशन प्रमाण-पत्र) जहां से आपने अन्तिम शिक्षा पाई हो।
- अपने गृह जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सीय परीक्षण कराकर प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा। यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत विकलांगता का प्रमाण पत्र अपलोड करें।

- प्रोसपेक्टस के (Annexure-G, G(a),G(b) ,H) पर अंकित प्रारूपों का अलग-अलग दस रुपये के शपथ पत्र पर पब्लिक नोटरी के द्वारा सत्यापित होना चाहिये, को अपलोड करें ।
- प्रवेश प्रारूप (Application for Admission) जो नीचे दिया गया है। चार प्रतियों में स्पष्ट बड़े अक्षरों में भर कर प्रमाणित रंगीन फोटो चिपका कर साथ लावें एवं प्रत्येक प्रारूप के साथ उपरोक्त सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छाया प्रतियां अवश्य संलग्न करें।
- उपरोक्त अनिवार्य प्रमाण-पत्रों को छोड़कर अगर कोई अन्य प्रमाण-पत्र न होने की दशा में 10 दिवस का अण्डरटेकिंग प्रपत्र को भरकर अपलोड करें।
- काउन्सिलिंग में पंजीकरण स्लिप एवं पी0डी0टी0 प्रवेश परीक्षा-2021 का एडमिट कार्ड साथ लायें।
- काउन्सिलिंग दिनांक **दिनांक 02 नवम्बर 2021 हेतु** अभ्यर्थियों की मेरिट सूची दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 को विश्वविद्यालय बेबसाइट पर अपलोड की जायगी। तदुपरांत अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि को पशु चिकित्सा महाविद्यालय के मुख्य भवन में प्रातः 10:00 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यात्रा में किसी भी प्रकार का विलम्ब होने या काउन्सिलिंग में अनुपस्थित होने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। काउंसलिंग के दौरान फ्री/पेमेंट सीट आवंटित होने के उपरान्त अभ्यर्थी को प्रोसपेक्टस पृष्ठ सं. 30 के अनुसार निर्धारित शिक्षण शुल्क जमा करना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि को शिक्षण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो ये समझा जाएगा कि अभ्यर्थी प्रवेश लेने के इच्छुक नहीं है व मेरिट अनुसार अगले अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जाएगा।

अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रमाण पत्र वास्तविक एवं सत्य हों क्योंकि इन प्रमाण पत्रों की जांच करायी जायेगी एवं आपकी मेडिकल रिपोर्ट को उपयुक्त पाये जाने पर ही आपके प्रवेश पर विचार किया जायेगा। यदि आपके प्रमाण-पत्र त्रुटिपूर्ण/फर्जी पाये गये तो आपका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा और आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जावेगी।

कुलसचिव

फीस से सम्बन्धित जानकारी

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पी0डी0टी0-2021 (डिप्लोमा कार्यक्रम) की प्रोसपेक्टस के पृष्ठ सं0 30 पर दिये गये Fees Structure के अनुसार फीस जमा करना आवश्यक होगा। फीस जमा न करने के अभाव में प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर अगले अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा।

कोर्स	फीस (रूपया)
डिप्लोमा कार्यक्रम हॉस्टल सहित	43,950.00
डिप्लोमा कार्यक्रम बगैर हॉस्टल	37,850.00

ड्राफ्ट 'वित्त अधिकारी, वेटरिनरी विश्वविद्यालय, मथुरा' के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की मथुरा शाखा में देय होना चाहिए।

**U.P.Pt Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidhalaya Evan
Go Anusandhan Sansthan Mathura-281001**

APPLICATION FORM FOR ADMISSION

TO

Diploma in Livestock Extension/veterinary Pharmacy SESSION-2021-22



1. Name of the applicant English (block letters).....
Hindi.....
2. Nationality.....
3. Aadhar Number.....
4. Name of the father and address with occupation.....
.....
5. Name of the guardian and address with occupation.....
(only in case father is not alive).....
6. Mailing & Postal address.....
.....
Tel No. with STD Code.....Mobile No.....
EMail.....
7. Permanent address.....
Dist.....State.....Pincode.....
8. (a) Date of birth.....(b) Age.....Year.....Month.....Days.....
9. Examinations passed:

Examination	Name of the Institution from where passed	Year of passing	Division Obtained	Maximum Marks/or O.G.P.A	Marks/or O.G.P.A obtained	Aggregate percentage or marks obtained or O.G.P.A	Number of attempts
1	2	3	4	5	6	7	8
(I) High School/Higher Secondary							
(II) Intermediate							
(III) Under graduate							
(IV) Post graduate							

Note: a. In not relevant parts Pl. write Nil.
b. Attach attested copies of certificates and mark sheet of all examinations passed.

10. Name of the Institution last attended.....
11. Have you ever represented in a District University or State level competition, if so attach documentary proof.
12. If you belong to any Reserved Category, Pl. specify and attach a certificate from the Competent Authority to that effect.
13. Have you ever been debarred from any Institution? Yes/No
14. If there is any gap of time after leaving the Institution last attend. How do you account for the intervening period? Pl. Enclose an affidavit.
15. Total income of guardian/parents.....per month/per year.
16. Details of documents attached
 - 1.....
 - 2.....
 - 3.....
 - 4.....
 - 5.....
 - 6.....

IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. Application form should be complete in all respects and must be accompanied by attested copies of all certificates and mark sheets in proof of educational qualifications as also of those supporting claims under 10, 11 and 12.
2. The undernoted declarations should invariably be signed by the student and the parent/guardian of the student, respectively otherwise the application will be rejected outright.

DECLARATION BY THE STUDENT

I hereby declare that I have read the instructions given in the Prospectus and I agree to abide by them.

I also declare that the information furnished by me is correct and no information has been withheld. I understand that withholding of any of the relevant information or giving false information renders me liable to dismissal from the University.

I hereby affirm that, if admitted. I shall strictly abide by all the rules and regulations of the University concerning studies, discipline in the college, hostel, library and any other place inside or outside the University campus. I also undertake that I shall not take part in any act of indiscipline or misbehavior in any form or manner. I shall do my best to uphold the honor, prestige and reputation of the University. I shall devote myself whole heartedly to my studies and assure that, under no circumstances I shall fall below the standards prescribed by the University. I understand that I am liable to be dropped if any academic performance falls below the prescribed standard or if I am found guilty of misbehavior or indiscipline.

Place.....

Signature of applicant in full in English

Date.....

ANNEXURE-A

अनुसूचित जाति / जनजाति (SC/ST)

(अभ्यर्थी के जन्म जिले के जिला मजिस्ट्रेट / प्रथम क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कु०.....पुत्र / पुत्री..... निवासी:
गाँव / शहर.....नगर.....जिला.....प्रदेश..... जन्म.....
जाति में हुआ था और यह जाति अनुसूचित जाति / जनजाति आदेश: संशोधनद्ध एक्ट 1956 के अन्तर्गत भारत
सरकार द्वारा मान्य अनुसूचित जाति / जनजाति है।

स्थान:

हस्ताक्षर:.....

दिनांक:

नाम:.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मोहर:

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी
सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

ANNEXURE-B

उत्तर प्रदेश निवासी के पुत्र/पुत्री

(उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित जिसका अभ्यर्थी निवासी है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....पिता/माता श्री/कु0..... उत्तर प्रदेश के
गाँव/शहर.....तहसील.....जिला.....के स्थायी निवासी है तथा श्री/कु0.....
.....अपने पिता/माता पर पूर्णतया आश्रित है।

अभ्यर्थी के माता/पिता के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

हस्ताक्षर जिला मजिस्ट्रेट.....

नाम:.....

मोहर:

ANNEXURE-C

उत्तर प्रदेश से स्वतन्त्रता सैनानियों (Sub Category FF)

(उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित जिसका अभ्यर्थी निवासी है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु०.....श्री/श्रीमती..... निवासी.....के पुत्र/पुत्री/पुत्रा के पुत्र/पुत्र की पुत्री (अविवाहित) है। श्री/श्रीमती..... ने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के कारण— जो लागू न हो उसे काटने का कष्ट करें।

1. कम से कम दो माह की वास्तविक अवधि के लिए कारावास का दण्ड भोगा हो या
2. नजरबंदी या अण्डर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास रहे हों
3. कम से कम 10 बेंतों की सजा पाई हो, या
4. फरार घोषित हुआ हो, या
5. गोली से घायल हुआ हो, या
6. वीरगति प्राप्त की हो, या
7. ऐसे व्यक्ति भी जो पेशावर काण्ड के रहे हो, या
8. भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हो, या
9. भूतपूर्व इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के प्रमाणित सदस्य हो, या

टिप्पणी: ऐसे व्यक्ति जिन्होंने माफी माँगी हो, उक्त परिभाषा में सम्मिलित नहीं माने जाएंगे।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....उपरोक्त स्वतन्त्रता सैनानी श्री.....के पुत्र/पुत्री है अथवा उनके पौत्र/पौत्री है तथा वह उन पर वास्तव में आश्रित है।

अभ्यर्थी के माता/पिता के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

हस्ताक्षर जिला मजिस्ट्रेट.....

नाम:.....

मोहर:

ANNEXURE-D

उत्तर प्रदेश सेना दल (Sub Category AF)

(सक्रिय सेवा अथवा भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री के लिए प्रमाण पत्र)

(अन्तिम यूनिट के आफिसर कमान्डिंग द्वारा प्रमाणित)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0.....पुत्र/पुत्री..... निवासी/गाँव/शहर
.....तहसील.....जिला.....प्रदेश.....दिनांक.....को सेवा
निवृत्त/युद्ध में मारे गए/अपंग हो गए। वे उस समय थलसेना/जलसेना/वायुसेना.....के.....
.....पर कार्यरत थे।

दिनांक:

यूनिट कमान्डिंग आफिसर के हस्ताक्षर

स्थान:

मोहर:

ANNEXURE-E

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री
श्रीनिवासी: गाँव.....तहसील.....

नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश.....राज्य की.....
पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं, यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा
अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....उत्तर प्रदेश राज्य
अधिनियम सूचना संख्या 22-16-92 का 2-95 दिनांक 8-12-95 में उल्लिखित अनुसूची-दो से आच्छादित
नहीं है।

श्री/कुमारी/श्रीमती.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम.....तहसील.....
.....नगर जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान:

हस्ताक्षर:.....

दिनांक:

नाम:.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मोहर:

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

This Certificate will be acceptable only if is issued after March 31, 2021.

ANNEXURE-F

**U.P. Pt. Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidhalaya
Evam Go Anusandhan Sansthan, Mathura**

**MEDICAL CERTIFICATE OF CANDIDATES ADMITTED TO 1ST YEAR OF DIPLOMA COURSE AT
THE COLLEGE OF VETERINARY SCIENCE AND ANIMAL HUSBANDRY MATHURA**

I do hereby certify that I have examined Sri..... a candidate for admission to the College of Veterinary Science & Animal Husbandry, Mathura and cannot discover that he has any disease, constitutional weakness of bodily infirmity except

I do not consider this a disqualification for his admission as a veterinary student.

Eye Examination Vision with glasses without glasses corrected

Right Eye

Left Eye

Height

Weight

His/her age according to his own statement isyears and by appearance about.....years.

He/she has been vaccinated or protected against typhoid and small pox

Personal marks of identification.....

Signature of the candidate in full

Place.....

Date.....

(Signature and Designation of Examining Officer)
(Official Seal)

NOTES:-

1. This certificate should be signed by the Medical Officer, C.M.O Any District of U.P. and his office seal must be affixed below his signature.
2. The candidate found unfit at the medical examination will not be allowed admission in the college.

ANNEXURE-G

AFFIDAVIT BY THE STUDENT

(TO BE SUBMITTED AT THE TIME OF COUNSELING)

1. (Full name of student with admission/registration/enrolment number).....S/o D/o Mr./Mrs/Ms.....having been admitted to..... (Name of the institution) have received a copy of the UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (herein after called the “Regulations”) Carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.
2. I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
3. I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
4. I hereby solemnly aware and undertake that
 - a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations
 - b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
5. I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations. Without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law for the time being in force.
6. I hereby declare that I have not been expelled or debarred form admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case of the declaration is founded to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this.....day of.....month of.....year.

Signature of deponent

Name:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at.....(Place).....on this the (day).....of.....(month).....(year).

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the.(day).....of.....(month)..... (year).....after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

ANNEXURE-G (a)

स्नातकीय/परास्नातकीय सत्र 2021-22 में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाने वाला शपथ पत्र

एतद द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
.....यह शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं इस विश्वविद्यालय के वर्तमान तथा भविष्य में लागू होने वाले नियमों/परिनियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा/करूँगी। अपने पूरे अध्ययनकाल में अनुशासित रहूँगा/रहूँगी। मथा मैं अपना आचरण एवं सभी के प्रति व्यवहार अच्छा रखूँगा/रखूँगी। यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं छात्रावास के अपने कमरे में आवसित छात्र/छात्रा के अतिरिक्त किसी अन्य छात्र/छात्रा को किसी भी दशा में नहीं रखूँगा/रखूँगी और न पंखा व बल्ब के अलावा अन्य कियी प्रकार का बिजली का सामान प्रयोग करूँगा/करूँगी। मुझे समय-समय पर पुनरीक्षित/अभिवर्धित बिजली कमरे का किराया तथा अन्य शुल्क मान्य होंगे।

यदि मैं। उपरोक्त अथवा अन्य किसी भी नियम/परिनियम को भंग करता हूँ/करती हूँ अथवा प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से अनुशासनहीनता की किसी कार्यवाही में भाग लेता/लेती हूँ तो विश्वविद्यालय द्वारा समुचित दण्ड मुझे स्वीकार होगा।

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पूरा पता.....

.....

ANNEXURE-G (b)

अभिभावक द्वारा शपथ पत्र

मैं.....जो श्री/श्रीमती/कुमारी..... के पिता/अभिभावक हूँ ऊपर दिए गए शपथ पत्र के सभी प्राविधानों का अभिभावक के रूप में अपने पुत्र/पुत्री/वार्डस से परिपालन कराने की शपथ लेता/लेती हूँ और साथ ही यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त अथवा किसी नियम/परिनियम की अवहेलना करने पर मुझे अपने पुत्र/पुत्री/वार्डस के प्रति विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मान्य होगा।

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर.....

पूरा नाम स्पष्ट अक्षरो में.....

पूरा पता.....

छात्र एवं छात्रा के पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

प्रमाणित.....

पब्लिक नोटरी का हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक

ANNEXURE-H

**AFFIDAVIT BY THE PARENT/GUARDIAN
(TO BE SUBMITTED AT THE TIME OF COUNSELING)**

1. Mr./Mrs/Ms..... (Full name of Parent/guardian) father/mother/guardian of.....(Full name of student with admission /registration / enrolment number)..... having been admitted to..... (Name of the institution) have received a copy of the UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (herein after called the “Regulations”) Carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.
2. I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
3. I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
4. I hereby solemnly aware and undertake that
 - i. My ward will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations
 - ii. My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
5. I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against him under any penal law for the time being in force.
6. I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred form admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case of the declaration is found to be untrue, my ward is aware that admission is liable to be cancelled.

Declared this.....day of.....month of.....year.

Signature of deponent
Name:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or mis-stated therein.

Verified at.....(Place).....on this the (day).....of.....(month).....(year).

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the.(day).....of.....(month).....
(year).....after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

ANNEXURE-I

अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाने वाला गैप शपथ पत्र

समक्ष: कुलसचिव, उ०प्र० पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्व विद्यालय एवं गौ-अनुसंधान संस्थान, मथुरा।

शपथ पत्र द्वारा श्री/श्रीमती/कु०.....पुत्र/पुत्री..... निवासी.....
.....

मैं शपथकर्ता/शपथकर्ती सशपथ निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ:-

1. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है तथा हालात शपथपत्र से बखूबी वाकिफ है।
2. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती ने हाईस्कूल की परीक्षा सन्.....में उत्तीर्ण की है।
3. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा सन्.....में उत्तीर्ण की है।
4. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती ने सन्.....में इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त आज तक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं लिया है। सन्.....से.....तक घर पर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की है।

मैं शपथकर्ता/शपथकर्ती उपरोक्त सशपथ तस्दीक करता/करती हूँ कि मजमून शपथपत्र की धारा 1 लगायत 4 मेरी निजी जानकारी में सच व सही है इसमें न कुछ झूठ है और न ही कोई तथ्य छिपाया ही गया है।

शपथकर्ता/शपथकर्ती

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रमाण-पत्र

Government of.....

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSETS CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. _____

Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter/wife of _____ permanent resident of _____ Village/Street _____ Post Office _____ District _____ in the State/Union Territory _____ Pin Code _____ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her 'family'*** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____ His/her family does not own or possess any of the following assets*** :

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)

Signature with seal of Office _____

Name _____

Designation _____

Recent Passport size attested photograph of the applicant

*Note1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

**Note 2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

अन्डरटेकिंग प्रपत्र

सेवा में,

कुलसचिव / उपकुलसचिव
दुवासु मथुरा।

महोदय,

मैं प्रार्थी पुत्र / पुत्री
रैंक..... पंजीकरण दिनांक को पाठ्यक्रम..... में
काउन्सिलिंग हेतु पंजीकरण के लिए अपरिहार्य कारणोंवश निम्न प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर सका:-

1.
2.
3.
4.
5.

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र प्रवेश के उपरान्त विश्वविद्यालय में जमा करने हेतु प्रार्थी को 10 दिन का समय देने की कृपा करें। यदि मेरे द्वारा उक्त अवधि में उक्त प्रमाण पत्र जमा नहीं किए जाते हैं तो विश्वविद्यालय द्वारा मेरा प्रवेश निरस्त करने पर मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

प्रार्थी / प्रार्थिनी

हस्ताक्षर:.....

नाम:.....

पिता का नाम:.....

पता:.....

मो0 नं0.....

रैंक.....